

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 18—अप्रैल 24, 2015 (चैत्र 28, 1937)

No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 18— APRIL 24, 2015 (CHAITRA 28, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली-110023, दिनांक 24 मार्च 2015

सं. 2/9/14-प्रशासन-279328—केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा श्री आनंद कुमार सिंह, आई.टी.एस.(1994) को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर आयोग में निदेशक के पद पर वेतनबैंड रु. 37,400—67,000/- में ग्रेड वेतन 8,700/- के साथ दिनांक 19.03.2015 (पूर्वाह्न) से शिफ्ट आधार पर 18 जुलाई, 2017 तक की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

पी. के. महान्ती
अवर सचिव (प्रशासन)
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110 124, दिनांक 12 मार्च 2015

पत्रांक-80-जी.ई. 1/13-2006—भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से सेवानिवृत्त/अनिवार्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं —

क्रम संख्या	अधिकारियों के नाम तथा पदनाम सर्वश्री/सुश्री	सेवानिवृत्त/अनिवार्य सेवानिवृत्त की तिथि
1.	शान्तनु बासू, प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.), आसाम, गुवाहाटी	अनिवार्य सेवानिवृत्त दिनांक 24.02.2015 (अपराह्न)
2.	बी. एस. मीना, उप-महालेखाकार (एस.एस.-II), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सा. एवं सा. क्ष. लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर	दिनांक 28.02.2015 (अपराह्न)

सुधा राजन
सहा. नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक (कार्मिक)

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय
(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171 004, दिनांक 31 मार्च 2015

संख्या 5/1/2015-सी.पी.आई.—फरवरी, 2015 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001-100) 1 अंक घट कर 253 (दो सौ तिरपन) अंकों के स्तर पर रहा।

एस. एस. नेगी
निदेशक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400 001, दिनांक 22 जनवरी 2015

सं. 6(2680)/14-प्रशा./907—राष्ट्रपति, श्री प्रणय कुमार वर्मा, आईएफएस (1994) को दिनांक 13.10.2014 से 31.12.2014 तक विशेष कार्य अधिकारी के रूप में तथा दिनांक 01.01.2015 से 12.10.2017 तक की अवधि के लिए अथवा भावी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई में संयुक्त सचिव (पीबी-4 रु. 37,400—67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. पी. एस. पिल्लै
अवर सचिव

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 6 अप्रैल 2015

सं. आरआरकेट/प्रशा./2014/भ-805/308—भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित तकनीकी अधिकारी/बी (पीबी-2, रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4800/-) को पदोन्नति पर दिनांक 01.07.2014 (पूर्वाह्न) से तकनीकी अधिकारी/सी (पीबी 3, रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) के पद पर राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इंदौर में आगामी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं:-

क्र.सं.	सं.सं.सं.	नाम	प्रभाग
1	1487	श्री हेमकांत शर्मा	यूएचवीटीएस
2	1588	श्री संजय कुमार मिश्रा	एलएमपीडी

बी. के. जेना
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सामान्य सेवा संगठन

कल्पाक्कम-603 102, दिनांक 2 मार्च 2015

सं. सासेसं/28(91)/2015-भ/933—राष्ट्रपति, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम के श्री सिवकुमार. एन., वैज्ञानिक अधिकारी/एस बी को वेतन बैंड रु. 9,300—34,800/- एवं ग्रेड वेतन रु. 4,800/- से वेतन बैंड रु. 15,600—39,100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर इसी संगठन में दिनांक 01.07.2013 से प्रभावी, अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. टी. मोहन
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. सासेसं/28(91)/2015-भ/933—राष्ट्रपति, सामान्य सेवा संगठन, कल्याकम के श्री तिरुपतिराज. एस., वैज्ञानिक सहायक/डी को वेतन बैंड रु. 9,300—34,800/- एवं ग्रेड वेतन रु. 4,800/- से वेतन बैंड रु. 15,600—39,100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में तकनीकी अधिकारी/सी के पद पर इसी संगठन में दिनांक 01.07.2013 से प्रभावी, अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. टी. मोहन
प्रशासनिक अधिकारी—III

सं. सासेसं/28(91)/2015-भ/933—राष्ट्रपति, सामान्य सेवा संगठन, कल्याकम के श्री गणेशराजन. के. एस., तकनीकी अधिकारी/बी को वेतन बैंड रु. 9,300—34,800/- एवं ग्रेड वेतन रु. 4,800/- से वेतन बैंड रु. 15,600—39,100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में तकनीकी अधिकारी/सी के पद पर इसी संगठन में दिनांक 01.07.2013 से प्रभावी, अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. टी. मोहन
प्रशासनिक अधिकारी—III

सं. सासेसं/28(91)/2015-भ/933—राष्ट्रपति, सामान्य सेवा संगठन, कल्याकम के श्री इलंगो. के. एस., वैज्ञानिक अधिकारी/एस बी को वेतन बैंड रु. 9,300—34,800/- एवं ग्रेड वेतन रु. 4,800/- से वेतन बैंड रु. 15,600—39,100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर इसी संगठन में दिनांक 01.07.2013 से प्रभावी, अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. टी. मोहन
प्रशासनिक अधिकारी—III

सं. सासेसं/28(91)/2015-भ/933—राष्ट्रपति, सामान्य सेवा संगठन, कल्याकम के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/सी को वेतन बैंड रु. 15,600—39,100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 5,400/- से वेतन बैंड रु. 15,600—39,100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 6,600/- में वैज्ञानिक अधिकारी/डी के पद पर इसी संगठन में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से प्रभावी, अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं:—

क्र.सं.	नाम	प.प.सं.	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति पर ग्रेड	से प्रभावी
1.	श्री सदासिवन .एस	50860	वै.अ./सी	वै.अ./डी	01.07.2013
2.	श्री बिकाश कुमार	52112	वै.अ./सी	वै.अ./डी	01.07.2013

पी. टी. मोहन
प्रशासनिक अधिकारी—III

सं. सासेसं/28(91)/2015-भ/933—राष्ट्रपति, सामान्य सेवा संगठन, कल्याकम के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/डी को वेतन बैंड रु. 15,600—39,100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 6,600/- से वेतन बैंड रु. 15,600—39,100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 7,600/- में वैज्ञानिक अधिकारी/ई के पद पर इसी संगठन में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से प्रभावी, अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं:—

क्र.सं.	नाम	प.प.सं.	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति पर ग्रेड	से प्रभावी
1.	श्री जनकर .एस .जी	50593	वै.अ./डी	वै.अ./ई	01.07.2013
2.	श्री राजशेखरन पी.	50749	वै.अ./डी	वै.अ./ई	01.07.2013
3.	श्री सत्य काली प्रसाद वी.	51072	वै.अ./डी	वै.अ./ई	01.07.2013
4.	श्री एलुमलै .एस	51117	वै.अ./डी	वै.अ./ई	01.07.2013
5.	डॉ. देवानन्द कुमार	52023	वै.अ./डी (चि)	वै.अ./ई (चि)	01.07.2013
6.	डॉ. बिप्लब चट्टर्जी	52036	वै.अ./डी (चि)	वै.अ./ई (चि)	01.07.2013

पी. टी. मोहन
प्रशासनिक अधिकारी—III

सं. सासेसं/28(91)/2015-भ/933—राष्ट्रपति, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/इ (चि) को वेतन बैंड रु. 15,600—39,100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 7,600/- से वेतन बैंड रु. 37,400—67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु. 8,700/- में वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (चि) के पद पर इसी संगठन में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से प्रभावी, अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं:—

क्र.सं.	नाम	प.प.सं.	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति पर ग्रेड	से प्रभावी
1.	डॉ. (श्रीमती) शोभा रंगनाथन	50829	वै.अ./ई (चि)	वै.अ./एफ (चि)	01.07.2014
2.	डॉ. माथ्यू पी. अलेक्स	51057	वै.अ./ई (चि)	वै.अ./एफ (चि)	01.07.2014

पी. टी. मोहन
प्रशासनिक अधिकारी—III

सं. सासेसं/28(91)/2015-भ/933—राष्ट्रपति, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/एफ को वेतन बैंड रु. 37,400—67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु. 8,700/- से वेतन बैंड रु. 37,400—67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु. 8,900/- में वैज्ञानिक अधिकारी/जी के पद पर इसी संगठन में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से प्रभावी, अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं:—

क्र.सं.	नाम	प.प.सं.	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति पर ग्रेड	से प्रभावी
1.	डॉ. (श्रीमती) सरोजा देवी वी.	50775	वै.अ./एफ (चि)	वै.अ./जी (चि)	01.07.2014
2.	श्री वेंकटेशुलु एम.	51115	वै.अ./एफ	वै.अ./जी	01.07.2014

पी. टी. मोहन
प्रशासनिक अधिकारी—III

सं. सासेसं/28(91)/2015-भ/933—निदेशक, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम के श्री सुब्रमणियन के वरिष्ठ लिपिक, इंगांपकें, कल्पाक्कम को दिनांक 19.01.2012 से रु. 9,300—34,800/- के वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम में सहायक लेखा अधिकारी (लेखा) के पद पर अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. टी. मोहन
प्रशासनिक अधिकारी—III

सं. सासेसं/28(91)/2015-भ/933—निदेशक, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम की कुमारी वी. चित्रा, सहायक लेखा अधिकारी, भापअकें, मुंबई को दिनांक 26.08.2013 से रु. 9,300—34,800/- के वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम में लेखा अधिकारी के पद पर अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. टी. मोहन
प्रशासनिक अधिकारी—III

सं. सासेसं/28(91)/2015-भ/933—निदेशक, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम के एच. एल. जाधव, सहायक, भापअकें, मुंबई को दिनांक 05.09.2012 से प्रभावी रु. 9,300—34,800/- के वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. टी. मोहन
प्रशासनिक अधिकारी—III

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार)

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर—208002, दिनांक 18 मार्च 2015

सं. 560(3)/8072—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई प्रतिकूल कारण न दर्शाये जाने पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तीन महीने की अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट

दिया जायेगा तथा कम्पनी विघटित कर दी जायेगी:—

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
1	केसीएन एगोआयल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2010PTC042493	C38484796
2	सफायरग्रीन कांसट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058571	C38780227
3	डायमण्डब्लू बुल्डोकर प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058313	C39262092
4	रिथी स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड	U92199UP2006PTC031756	C39753108
5	परफेक्ट कैरियर कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U80211UP2002PTC026483	C39909916
6	एस एम प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड	U93030UP2012PTC051156	C40165664
7	टनुराज रिफैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	U29300UP2005PTC029493	C40596165
8	गोल्डन रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U80904UP2012PTC049979	C40782328
9	त्रिवेणी ईलर्निंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC050578	C40792715
10	डिग एण्ड ड्रिल कान्टैक्टिंग एण्ड सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2012PTC051277	C40884124
11	श्री दाउजी कम्प्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U32300UP2007PTC033310	C41133588
12	रिलाइबेल सुरक्षा एण्ड स्पोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U93000UP2009PTC036967	C41399072
13	केयर इलेक्ट्रो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U31908UP2009PTC036643	C41450255
14	जेएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2007PTC033818	C41459132
15	रिइन्फोर्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC037427	C41542259
16	इनिगमा साफ्टवेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC046637	C41621954
17	डीएन ट्रवल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U63040UP2014PTC063438	C41629700
18	स्वीटड्रीम्स एगोटेक एण्ड लैंड डेवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड	U93000UP2010PLC040441	C41697202
19	ब्राइटमून सेल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U67190UP2010PTC040425	C41723230
20	लुब्रीजूम पेट्रोलियम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U23203UP2013PTC056614	C41719048
21	विनलाजिक एल टी सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U93000UP2009PTC036967	C41782558
22	नट्स टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड	U31908UP2009PTC036643	C41850421
23	वीनस मिनरल वाटर प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2007PTC033818	C41916750
24	शुभांशु प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC037427	C41973371
25	एपिकल इन्फोकंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC046637	C42007625
26	वेद बिजनेस एसोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड	U63040UP2014PTC063438	C42025718
27	स्टारलाइन इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U93000UP2010PLC040441	C42060244
28	एबी एगोरिटेल् प्राइवेट लिमिटेड	U67190UP2010PTC040425	C42081042
29	सीएसी आरचीटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U23203UP2013PTC056614	C42114934
30	बीएसके इंफाटेक प्राइवेट लिमिटेड	U93000UP2009PTC036967	C42116400

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
31	ग्लोरिअस ईवेंट्स एण्ड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड	U31908UP2009PTC036643	C42120386
32	कीसा इस्टेट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2007PTC033818	C42149849
33	एल्केमिया टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC037427	C42146902
34	सेफरग्रीन बुल्डकान प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC046637	C42178970
35	डायमण्डब्लू मेगाबिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U63040UP2014PTC063438	C42194407
36	नागेश्वर इन्फ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड	U93000UP2010PLC040441	C42205047
37	यूनिर्कान लिक्वर्स प्राइवेट लिमिटेड	U67190UP2010PTC040425	C42226670
38	पैनएशिया हास्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड	U23203UP2013PTC056614	C42304634
39	शिराज ए खास हास्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड	U93000UP2009PTC036967	C42375147
40	जेएनके एयरोमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U31908UP2009PTC036643	C42477984
41	एल्पाइन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2007PTC033818	C42498113
42	पीएसएम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC037427	C42498287
43	बी पाजिटिव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC046637	C42536060
44	रियल भूमि इण्डिया लिमिटेड	U63040UP2014PTC063438	C42596098
45	आरम्भ हाउसिंग इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC053719	C42661215
46	आइडियल मेडीकेयर एण्ड डायग्नोस्टिक्स	U85191UP2013PTC055548	C42665125
47	श्रीवास्तव सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC055045	C42674432
48	इन्तहा इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2010PTC040361	C42828095
49	वेलनेस पावर योगा प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2011PTC044005	C42892299
50	गोल्डलाइन आई सी टेक्सटाइल्स एण्ड फैशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U18204UP2010PTC042097	C42949800
51	सूर्यस्वास्तिक हाउसिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC054268	C42954495
52	बिज दुनिया इंफोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	U93030UP2011PTC044654	C43017185
53	विद्या होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2011PTC047595	C43152875
54	फाइव माइंड टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड	U80211UP2014PTC062697	C43182740
55	व्हाइट फैदर फैशन प्राइवेट लिमिटेड	U17121UP2006PTC032670	C43187368
56	कालका वाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	U52100UP2012PTC053727	C43229996
57	हीरा पन्ना ट्रेडइम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC050043	C43245208
58	इंस्टोक्योर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	U24100UP2014PTC062355	C43248111
59	साइंसटिफिक मेमोरी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC036576	C43547751
60	साइंसटिफिक मेमोरी डेवलपमेंट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2007PTC033959	C43548593
61	युविक ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2013PTC060581	C43657162

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
62	एचआर इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC055792	C43684026
63	एक्सबर्डस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2011PTC046256	C43763457
64	एमएल आटो एण्ड डीजल स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड	U36999UP1995PTC017526	C43831072

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चंडीगढ़, दिनांक 31 मार्च 2015

सं. आर ओ सी/560(5)/एफ टी ई/2013—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विधित्त हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है:—

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
1	33591	पावा स्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	30236	एन वाई एक्स प्लास्टिकस प्राइवेट लिमिटेड
3	33790	इमर्जिंग इंडिया हैल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
4	35918	जकोम इंफोमेटिक प्राइवेट लिमिटेड
5	18372	व्हाइटफिल्ड इंजिनियरिंग एंड फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड
6	13891	इंडो इटेलियन एगो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड
7	09670	फोरच्यून एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
8	34599	पॉल लाईफ सांईसिज प्राइवेट लिमिटेड
9	36646	आर पी प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
10	29250	सोलिटियर फार्मेशनियल कन्सलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
11	08580	नचीकेता स्ट्रीप्स एंड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
12	32562	ए एम म्यूजिक करियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
13	35127	जैन्डर्स सक्विलस प्राइवेट लिमिटेड
14	26130	सिबरोज इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
15	3013	रेन्बो निटर्स प्राईवेट लिमिटेड
16	30699	कोर स्ट्रक्चर्ज प्राईवेट लिमिटेड
17	33313	टोरस इमिग्रेशन एंड वीजा कंसलटैंट्स प्राईवेट लिमिटेड
18	20914	महाजन एग्रो मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
19	26055	इम्प्रैशन्स पोली सक्स प्राईवेट लिमिटेड
20	31366	मिडवे एंटरप्राइजिज प्राईवेट लिमिटेड
21	25671	फिन टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
22	19788	न्यू ईरा परपैच्यूल इनोवेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
23	37289	डी आर पी फोरजिंग्ज प्राईवेट लिमिटेड
24	34531	मिलशान होस्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड
25	33688	रेड क्राफ्ट एकेडमी प्राईवेट लिमिटेड
26	34521	रिसेन्ट एंड रैक लैब प्राईवेट लिमिटेड
27	33874	इंडो पॉवर कंस्ट्रक्शन इक्यूपमेंट लिमिटेड
28	15296	मन्कू मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
29	38744	डूरेन्ड इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
30	05119	संसारीमल करतार चंद प्राईवेट लिमिटेड
31	15254	गोयल क्लीनिक प्राईवेट लिमिटेड
32	33308	गनपक ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
33	34566	अदित्या प्रोसैसिंग प्राईवेट लिमिटेड
34	34700	लैंडकोन इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड
35	38510	इनोवेटिव ग्लोबल डायबैटिक क्योर लिमिटेड
36	32506	कलरटैक इंक्स एंड कोटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
37	35734	जियूस इंफ्रा डिवेलपर्स लिमिटेड
38	36537	कोसैट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
39	33989	क्रिमैन इंडिया लिमिटेड
40	21350	हारेज प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
41	32095	कोर सोफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

ह. /— अपठनीय
सह रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
पंजाब एण्ड चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 27 मार्च 2015

सं. आर ओ सी/पीटी/एफ टी ई/560(5)/1115—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विधित्त कर दी गई हैं:—

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या
1	जेपसन सेक्युरिटीज ब्रोकिंग प्रा. लि.	U67120MH2005PTC153174
2	अलहुझोफ एक्विजिशन प्रा. लि.	U51900MH1992PTC066574
3	व्यंकटेश ग्रीन प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	U01403MH2011PTC216032
4	व्यंकटेश वेल्थ मल्टीप्लायर प्रा. लि.	U70102MH2011PTC222259
5	प्रिन्स डेव्हलपर्स अण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.	U45203MH2004PTC147642
6	सांज प्रॉपर्टीज प्रा. लि.	U45400MH2007PTC169885
7	ठक्कर पेन मार्ट प्रा. लि.	U36991MH1994PTC078905
8	मि. कुक इंडिया प्रा. लि.	U74990MH2012PTC226858
9	ट्वेन्टी फोर सेवन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.	U74999MH2008PTC184225
10	गुसबेरी फूड्स प्रा. लि.	U15132MH2009PTC195836
11	जे एम ज्वेल्स प्रा. लि.	U28133MH2011PTC215571
12	लैन्टर्न गेमिंग अण्ड एन्टरटेनमेंट प्रा. लि.	U72300MH2011PTC216779
13	ग्लिमर प्रॉपर्टीज प्रा. लि.	U74999MH2007PTC168221

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या
14	विल्पा कंसल्टकशन्स प्रा. लि.	U45200MH1998PTC116773
15	श्रेयास सप्लाय चेन मॅनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	U63010MH2008PTC184268
16	मॅग्नन शिपिंग .एजेन्सी एजन्सी प्रा. लि.	U63090MH1995PTC095667
17	ट्रान्सलाइन शिपिंग (मुंबई) प्रा. लि.	U63032MH2008PTC189204
18	प्राईम कंसल्टकशन्स अँड डेव्हलपर्स प्रा. लि.	U45200MH1994PTC083520
19	सिल्व्हरशाइन अँग्रीकल्चर प्रा. लि.	U01403MH2010PTC208050
20	भाऊलक्ष्मी केमिकल्स प्रा. लि.	U24299MH1985PTC038158
21	एएए मल्टी-टेक्नॉलॉजीस प्रा. लि.	U74999MH2010PTC204286
22	सरकार सेरेमिक्स प्रा. लि.	U52342MH2010PTC199850
23	परीमल अँरोमॅटिक प्रा. लि.	U24100MH1992PTC066572
24	इमोसम्बिज फूड टेक्नॉलॉजीस प्रा. लि.	U15122MH2011PTC215825
25	हिरमनेक ग्रीह निर्माण प्रा. लि.	U45200MH1998PTC116011
26	विन्जीरा फूड्स प्रा. लि.	U15400MH2011PTC211755
27	ले मोड फैशन्स प्रा. लि.	U18204MH2010PTC204673
28	गुरुदेवा प्रोडकशन्स प्रा. लि.	U92120MH2006PTC165129
29	ओशियान मोबाइल प्रा. लि.	U74900MH2008PTC181972
30	आर. आर. इन्टरनॅशनल प्रा. लि.	U99999MH1981PTC025643
31	क्विक कटस प्रा. लि.	U74990MH2010PTC205988
32	एबीएस एव्हीएशन अँड लॉजीस्टीक्स प्रा. लि.	U35303MH2007PTC175024
33	जे अँड एम लेझर क्लब प्रा. लि.	U92190MH2003PTC139460
34	एस. आय. सिनेमावाला प्रा. लि.	U92100MH2008PTC188718
35	स्ट्रिमलाइन प्रोफेशनल सर्विसेस प्रा. लि.	U74999MH2008PTC179543
36	रुषभ वेजीटेबल ऑइल प्रा. लि.	U72300MH1998PTC117144
37	दोशी पॉलीपॅक प्रा. लि.	U28129MH1986PTC038848
38	टेटरिक्श एन्टरटेनमेंट इंडिया प्रा. लि.	U92130MH2002PTC136983

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या
39	किनिसेस एन्टरटेनमेंट इंडिया प्रा. लि.	U92110MH2004PTC144188
40	डब्लुजीआय (इंडिया) कंसलटन्सी सर्विसेस प्रा. लि.	U93090MH2008PTC181151
41	इक्सार-विजे टेक्नॉलॉजीस प्रा. लि.	U85195MH2008PTC184051
42	नवरीम मार्केटिंग प्रा. लि.	U51900MH1992PTC069640
43	होलीहॉन लोके (इंडिया प्रा. लि.)	U74120MH2011FTC222612
44	वेस्टर्न फर्निचर इंडिया प्रा. लि.	U36103MH2011PTC215467
45	फोनीक्स इन्फिनीटी इंडिया प्रा. लि.	U52100MH2012PTC236528
46	इम्बु ट्रेडिंग प्रा. लि.	U92110MH2003PTC140444
47	इम्पैक्ट बेडिंग अँड उफोलस्टेरी प्रोडक्टस प्रा. लि.	U18100MH2010PTC200963
48	फ्लॉपच्युरनरीवर गेम्स इंडिया प्रा. लि.	U92412MH2009PTC198109
49	अम्फीबियन सोलुशन्स प्रा. लि.	U72200MH2008PTC184578
50	सुंदर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स प्रा. लि.	U70100MH1995PTC086049
51	प्रोटेक्ट प्रॉपर्टीज प्रा. लि.	U70109MH2007PTC168607
52	अमृत इंडस्ट्रीयल अँड कंसलटन्सी सर्विसेस प्रा. लि.	U28900MH1997PTC111484
53	इ अँड टी नॉलेज टुल्स अँड प्रोसेस डेव्हलपमेंट प्रा. लि.	U74120MH2012PTC230004
54	बिटरस्वीट टेक्नॉलॉजी प्रा. लि.	U72900MH2009PTC190117
55	अलीसा टेक्नॉलॉजीस प्रा. लि.	U74900MH2008PTC180844
56	सपना कॉन्ट्रैक्टर्स अँड इंजिनिअर्स प्रा. लि.	U45102MH2006PTC158722
57	डेसीज इस्टेस्टस प्रा. लि.	U70100MH2005PTC158395
58	विबा फायबर प्रा. लि.	U29269MH1996PTC104224
59	युरोसॉफ्ट इम्पेक्स प्रा. लि.	U51900MH2000PTC126966
60	इलेगन्ट ब्यूटी प्रोडक्टस प्रा. लि.	U24246MH1985PTC036693
61	कन्टेम्पररी गौरमेट आउटलेट प्रा. लि.	U51109MH2008PTC185982
62	टैलेन्ट कॉनफ्लक्स कंसलटन्सी प्रा. लि.	U74900MH2010PTC202296

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या
63	महेश्वरी बिल्डकॉन प्रा. लि.	U45202MH2009PTC198180
64	के. एस. चेमफार्मा प्रा. लि.	U24239MH2007PTC166632
65	प्रिया इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अँड डेव्हलपर्स प्रा. लि.	U45200MH2007PTC166634
66	विराग टेक्सपोर्ट प्रा. लि.	U51909MH2011PTC216606
67	साइ बिज इन्फो सिस्टीम प्रा. लि.	U74900MH2010PTC205262
68	जिवनानी क्लॉथ स्टोअर्स प्रा. लि.	U51109MH1990PTC057539
69	ड्रैगजेस इंजिनिअरिंग अँड कंस्ट्रक्शन (इंडिया) प्रा. लि.	U45201MH2007PTC169616
70	अंडवेट सिटी मुवर्स प्रा. लि.	U93000MH2010PTC208933
71	पॉज़िटिव डेल्टा कम्युनिकेशन्स प्रा. लि.	U64201MH2005PTC157929
72	व्दारिका डेव्हपमेंट अँड लिडिंग प्रा. लि.	U70200MH1997PTC112548
73	एलपीसी हेल्थ केअर प्रा. लि.	U36101MH2010PTC209865
74	निश्चय हॉस्पिटैलिटी प्रा. लि.	U55101MH2003PTC141273
75	अंबसोलुट टेलीविजन अँड एन्टरटेनमेंट प्रा. लि.	U92130MH1997PTC112005
76	गोकुल सारीज प्रा. लि.	U17110MH1997PTC106810
77	बि वाय बिल्डर्स प्रा. लि.	U70102MH1982PTC027804
78	संगिनी एअरलाइन्स प्रा. लि.	U62200MH2008PTC180808
79	जशोधारा ट्रेडिंग प्रा. लि.	U51101MH2010PTC208977
80	चार्म्स प्रॉपर्टीज प्रा. लि.	U45200MH1994PTC077817
81	एस वि एस अँग्रो फर्म प्रा. लि.	U65920MH1998PTC117665
82	जसपर अँग्रोटेक प्रा. लि.	U01400MH2010PTC202547
83	ओजस मर्कन्टाइल प्रा. लि.	U14100MH2007PTC173412
84	शिवम मेडिकेअर प्रा. लि.	U85110MH2005PTC150629
85	ख्वाइश मुवीज प्रा. लि.	U92100MH2004PTC147131
86	अपोलो शिपिंग प्रा. लि.	U61200MH2009PTC194954

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या
87	न्यु हॉरीजन क्रसेस प्रा. लि.	U01405MH1986PTC041646
88	स्वस्तिक आर्टिस्ट प्रमोशन प्रा. लि.	U22190MH2009PTC189866
89	सिगुल सोलुशन लिमिटेड	U72900MH2000PLC123932
90	तनी इजीफड प्रा. लि.	U70102MH2012PTC234669
91	कॉस्मिक गेट टेक्नॉलॉजी प्रा. लि.	U72900MH2009PTC192364
92	इनरकॉन फेवरेटो पेपर्स प्रा. लि.	U21090MH2010PTC199994
93	ब्राहंस इंजिनिअरिंग कंपनी प्रा. लि.	U74210MH1983PTC029659
94	विजेता डेव्हलपर्स प्रा. लि.	U45200MH1991PTC063509
95	अंशु मार्केटिंग प्रा. लि.	U51101MH2013PTC243713
96	श्री देनानंद भाऊ राँकरी शुगर मिल्स प्रा. लि.	U15490MH2011PTC218606
97	शोगुन नेटवर्क लिमिटेड	U51909MH1995PLC088665
98	मायक्रोकॉम्प इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.	U29220MH1991PTC060066
99	कामेश्वर वेअरहाउसिंग प्रा. लि.	U63020MH1993PTC072644
100	भ्राम्हस कारपोरेट सर्विसेस प्रा. लि.	U74140MH2008PTC189170
101	ड्रायडॉक्स वर्ल्ड-इंजिनिअरिंग प्रा. लि.	U74990MH2009PTC191067
102	सम्यक केमिकल्स अँड फार्मासिटिकल्स प्रा. लि.	U74900MH2012PTC231914
103	तन्मय ट्रान्सपोर्ट प्रा. लि.	U62200MH2011PTC214063
104	निलकर ट्रेडिंग कं. प्रा. लि.	U15490MH2010PTC204297
105	इकोमुव्ह सोलुशन्स प्रा. लि.	U72200MH2008PTC187718
106	आरसिएफ-एचएम कंसट्रक्शन्स सोलुशन्स प्रा. लि.	U45202MH2009PTC193070
107	वैभव लक्ष्मी कमर्शियल सर्विसेस प्रा. लि.	U74999MH2004PTC149542
108	हायजेनिक फुड प्रोडक्टस प्रा. लि.	U15130MH1984PTC034134
109	इझी ऑनलाइन मार्केटिंग प्रा. लि.	U74900MH2010PTC209433
110	निजी टेक्सटाइल्स प्रा. लि.	U17120MH1990PTC056731
111	विशाल इलेक्ट्रो सिस्टिम्स प्रा. लि.	U31300MH1997PTC112653

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या
112	पान सप्लाय चैन सोलुशन्स प्रा. लि.	U63000MH2009PTC193921
113	सिकसॅक ऑनलाइन सोलुशन्स प्रा. लि.	U72900MH2007PTC173662
114	स्किल हिमाचल हिल्स रिसोर्ट्स प्रा. लि.	U55101MH2007PTC170446
115	सिएट फायनान्स अँड इनव्हेस्टमेंट लि.	U65923MH2008PLC182334
116	रॉयल सेक्युअर लाइफ प्रा. लि.	U66000MH2009PTC194062
117	ग्लोरिअन्ट कंसलटन्सी सर्विसेस प्रा. लि.	U74140MH2010PTC209482
118	जि के बल्क लॉजीस्टीक प्रा. लि.	U63030MH2005PTC151664
119	इगल प्लास्टोचेम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.	U24117MH2005PTC157821
120	हेलीअस टेक्नोलॉजीस प्रा. लि.	U72900MH1999PTC117774
121	ओकेए वाटर सोलुशन सिस्टिम्स प्रा. लि.	U33111MH2011PTC224868
122	कापरी शिपिंग प्रा. लि.	U35100MH1987PTC045510
123	हँकर फायनान्स अँड मार्केटिंग प्रा. लि.	U65944MH1993PTC070305
124	वाशी चेमी-क्विप प्रा. लि.	U99999MH1994PTC076585
125	द्वारका ग्रीन हिल होटेल्स प्रा. लि.	U55100MH2004PTC149985
126	गो इन्व्हेन्टस प्रा. लि.	U92190MH2007PTC177146
127	विघ्नेश्वर सेक्युरिटीज प्रा. लि.	U75300MH2008PTC182257
128	ज्नीस नेटवर्किंग इंडिया प्रा. लि.	U72900MH2008PTC181551
129	मधानी स्टॉक्स ब्रोकर्स प्रा. लि.	U65999MH2008PTC189041
130	रिसोट्टो फुड्स प्रा. लि.	U15400MH2008PTC187168
131	आयबिएस प्रॉपर्टीज प्रा. लि.	U70102MH2012PTC232677
132	कंप्रीकॉर्न ग्लोबल सर्विसेस प्रा. लि.	U67190MH2006PTC159902
133	इश्ना कम्युरिकेशन्स प्रा. लि.	U74300MH1996PTC098259
134	गुजरात इंजिनिअरिंग वर्क्स प्रा. लि.	U74210MH1986PTC040882
135	सुरक्षा होल्डिंग प्रा. लि.	U67120MH1994PTC078237
136	दिआर एनर्जी वेंचर्स प्रा. लि.	U31300MH2005PTC157214

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या
137	रावयोग इम्पेक्स प्रा. लि.	U51310MH2000PTC126840
138	कास्टवेल फाउंड्रीज प्रा. लि.	U27200MH1971PTC015143
139	लक्झरी ब्रण्ड्स रिटेल प्रा. लि.	U52190MH2005PTC157856
140	विकी बिल्डर्स प्रा. लि.	U45400MH2009PTC192684
141	एक्सल-इन-सी शिपिंग एजन्सीज प्रा. लि.	U63090MH2005PTC150528
142	एसपीटीवी इन्फ्रास्ट्रक्चर् प्रा. लि.	U45200MH2008PTC178236
143	सुरेन्द्र क्वालिटी फोर्ज प्रा. लि.	U27320MH2003PTC138505
144	ब्रेन अण्ड इरिस मेडिकल टेक्नॉलॉजीस प्रा. लि.	U72900MH2008PTC179885
145	फुटप्रिन्ट्स मोशन पिक्चर्स प्रा. लि.	U92412MH2011PTC212439
146	वैकटेश प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	U51900MH1991PTC062956
147	एस. आर. टी. क्रियेशन्स प्रा. लि.	U80904MH2009PTC194772
148	भक्ती कॅपीटल अडव्हायज़र्स प्रा. लि.	U67190MH2008PTC183627
149	अमेज़ॉन ऑफशोर प्रा. लि.	U63012MH2006PTC166157
150	एसविड्डी मशिन्स (इंडिया) प्रा. लि.	U74201MH1994PTC078065
151	श्री गुरुनानक हॉस्पिटल्स अण्ड रिसर्च सेंटर लि.	U85110MH2004PLC144186
152	रिच फॅब सिल्क मिल्स प्रा. लि.	U51494MH1989PTC054292
153	स्नाता बिपिओ प्रा. लि.	U74900MH2007PTC174637
154	हर्षनिल सोलवेक्स प्रा. लि.	U74900MH2008PTC177795
155	अतिक्श इन्फ्रास्ट्रक्चर् प्रा. लि.	U70102MH2011PTC220400
156	प्रिसाइज बिजिनेस इनक्यूबेशन इंडिया प्रा. लि.	U74990MH2010PTC200043
157	स्पक्क्ष रिअल्टी प्रा. लि.	U70102MH2010PTC208916
158	आरयु कंसलटन्सी सर्विसेस प्रा. लि.	U72200MH2005PTC153489
159	नोएल्स फुड्स अण्ड हॉस्पीटॅलीटी प्रा. लि.	U55101MH2010PTC204008
160	मार्स कुपर प्रा. लि.	U27201MH2009PTC197168
161	ब्लु ओपेल डेव्हलपर्स अण्ड कंसलटिंग सर्विसेस प्रा. लि.	U72200MH2011PTC223060

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या
162	चक्रवर्ती इनव्हेस्टमेंट प्रा. लि.	U67120MH1998PTC114094
163	स्मित ट्रव्हल सर्विसेस प्रा. लि.	U63040MH2008PTC186262
164	कैप इंटेरिअर्स प्रा. लि.	U45400MH2008PTC186754
165	बालाजी नोनी प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	U74120MH2012PTC237356
166	सुप्रोहा प्रॉपर्टीज प्रा. लि.	U70102MH2011PTC223266
167	इक्वीफैक्स टेक्नॉलॉजीस इंडिया प्रा. लि.	U74900MH2011FTC211803
168	इंटर-डिजिटल सिस्टिम्स प्रा. लि.	U31401MH1992PTC069346
169	फर्स्ट फ्यूचर प्रॉपर्टीज प्रा. लि.	U45200MH2008PTC186956
170	नेक्स्ट प्रैक्टिस रिटेल प्रा. लि.	U93000MH2007PTC173520
171	न्यु खिम होल्डिंग्स प्रा. लि.	U67120MH1979PTC021783
172	शॉपर्स फॉरच्युन मार्केटिंग प्रा. लि.	U51909MH2008PTC183112
173	हाथवे एमसीएन जालना-हिंगोली केबल नेटवर्क प्रा. लि.	U74120MH2012PTC231784
174	तेजदीप फॅसीलीटीज मॅनेजमेंट अँड इलेक्ट्रीकल्स प्रा. लि.	U31200MH2005PTC156074
175	ग्लैमर एन्टरटेनमेंट प्रा. लि.	U92100MH2004PTC146436
176	इलाइट डेन्टल कंपनी प्रा. लि.	U85120MH1995PTC086778
177	जयकेतन मशिनरी अँड क्लॉथिंग प्रा. लि.	U99999MH1983PTC030070
178	ब्युटिफुल पथ रिअल्टर्स प्रा. लि.	U70102MH2011PTC215308
179	एस्थेटिक रिअल्टर्स प्रा. लि.	U45200MH2007PTC168315
180	खिम फिल्टरेशन इंडिया प्रा. लि.	U74999MH1985PTC035221
181	खिमजी इंजिनिअर्स अँड कंसलटन्ट्स प्रा. लि.	U28920MH1975PTC018528
182	चंदराम आर्ट प्रा. लि.	U51900MH2008PTC183751
183	बिएसस्मार्टझोनलाइन (इंडिया) प्रा. लि.	U72200MH2007PTC172587
184	हंस लेज़र टेक्नॉलॉजी इंडिया प्रा. लि.	U31900MH2007FTC169655
185	तिरुपती नोनी प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	U74120MH2012PTC237340

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या
186	रिफ्लेक्ट फार्मलैण्ड प्रा. लि.	U74996MH2012PTC237052
187	तिरुपती नोनी कल्टिवेशन प्रा. लि.	U74996MH2012PTC237074
188	ह्युमन फैक्टर प्रोग्रेशन प्रा. लि.	U74999MH2013PTC239464
189	संगत बनी प्रोग्रेशन प्रा. लि.	U74120MH2013PTC239533
190	वास्पल पॅकेजिंग प्रा. लि.	U25202MH1997PTC105706
191	नेटमॅजीक स्टॉक होल्डिंग प्रा. लि.	U65993MH2001PTC132784
192	विविड रिअल्टर्स प्रा. लि.	U72100MH1993PTC072226
193	लिओ गोल्ड मायनिंग प्रा. लि.	U51398MH2010FTC206542
194	स्प्रिंग गेम्स प्रा. लि.	U72900MH2012PTC236523
195	एसकेएम एक्जिम ट्रेडिंग प्रा. लि.	U51909MH2007PTC170749
196	इमोर्टल सिस्टिम्स प्रा. लि.	U74120MH2012PTC227586
197	ओम्नीकॉम फ्रेट मॅनेजमेंट प्रा. लि.	U63030MH2007PTC170642
198	हुवर अण्ड स्ट्रॉग क्रियेशन्स इंडिया प्रा. लि.	U36900MH2011PTC218175
199	अनगा मार्केटिंग अण्ड मॅनेजमेंट प्रा. लि.	U24119MH1995PTC094702
200	कासा कॅपीटल अंडव्हायझर्स प्रा. लि.	U67190MH2011PTC212351
201	अनजाने नॅचरल रिसोर्स प्रा. लि.	U13204MH2008PTC188320
202	लाजवाब हॉस्पिटैलीटी प्रा. लि.	U55101MH2008PTC184678
203	इंटरनॅशनल फ्लाइट ट्रेडिंग इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रा. लि.	U80301MH2010PTC211672
204	एचबोट सोलुशन्स इंडिया प्रा. लि.	U55209MH2007PTC168906
205	इटालिअन लायटिंग प्रा. लि.	U36998MH2007PTC176261
206	अरेटिक इन्शुरन्स सर्विसेस प्रा. लि.	U67200MH2004PTC145896
207	केएस झनेट हेल्थ केअर प्रा. लि.	U24230MH2002PTC135709
208	मॅग्नम डेव्हलपर्स प्रा. लि.	U99999MH1987PTC043349
209	मदर्स नेस्ट प्रा. लि.	U55101MH2009PTC196866
210	इन्टेक टेक्नॉलॉजीस प्रा. लि.	U72900MH2000PTC126557
211	लिओ-कॅन्शीअन एन्टरटेनमेंट प्रा. लि.	U74120MH2012PTC233142
212	डॉमिनो सॉफ्टवेयर सर्विसेस प्रा. लि.	U72900MH2009PTC195409

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या
213	माइसन आयटी पार्क प्रा. लि.	U45209MH2007PTC170042
214	न्यासा सेक्युरिटीज अँड मैनेजमेंट कंसलटन्टस प्रा. लि.	U80301MH2010PTC206085
215	नेटपॉइंट सूर्या कंसलटन्सी प्रा. लि.	U74140MH2004PTC148755
216	किवी पॉलीमर प्रा. लि.	U24110MH1995PTC089170
217	सनगोल्ड कंन्सट्रक्शन् प्रा. लि.	U45200MH1990PTC057971
218	वर्मा प्लास्टिक्स ट्रेडर्स प्रा. लि.	U25209MH1992PTC066508
219	कुंदन फास्टनर्स प्रा. लि.	U99999MH1994PTC081931
220	एपीजी कंन्सट्रक्शन्स अँड इन्फ्रा प्रा. लि.	U45400MH2010PTC208124
221	आइसबर्ग निटिंग प्रा. लि.	U17120MH1997PTC111792
222	एफएमसीजीएमइ इम्पोर्टर्स अँड डिस्ट्रिबुटर्स प्रा. लि.	U51909MH2005PTC155318
223	तप्लास्ट डिस्पेन्सिंग सिस्टिम्स प्रा. लि.	U74990MH2011PTC212265
224	सनसुला- ब्रेको फुडस अँड बेव्हेरेजेस (इंडिया) प्रा. लि.	U15510MH1998PTC115207
225	कल्पेश टेक्नॉलॉजीस प्रा. लि.	U72200MH2006PTC163073
226	इनॉल्गस सोलुशन्स प्रा. लि.	U72400MH2011PTC225421
227	पारस मर्चन्डाइज़ प्रा. लि.	U51909MH2005PTC151281
228	मेरील लॅबोरेटरीज प्रा. लि.	U24232MH2007PTC176548
229	स्टेप अप मल्टिहँडल प्रा. लि.	U74900MH2010PTC204411
230	जाफ्स प्रॉपर्टीज प्रा. लि.	U70100MH2005PTC154748
231	इपका ट्रेडिशनल रिमेडिज प्रा. लि.	U85100MH2007PTC170959
232	माजसन अँगोबायोटेक प्रा. लि.	U01403MH2007PTC170043
233	जीनी नितस इंडिया प्रा. लि.	U51310MH2006PTC159565
234	ब्ल्युसन मर्कन्टाइल कंपनी प्रा. लि.	U51909MH2004PTC144264
235	मराइज लॅबोरेटरीज प्रा. लि.	U24100MH2007PTC175669

टी. पाण्डियन
उप कंपनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोलकाता, दिनांक 30 मार्च 2015

सं. क.र./प.ब./560/एफटीई/2015/5839—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 17 कम्पनियों का नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:—

क्र० स०	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
1	U63040WB2006PTC111347	सी.जी. टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
2	U19115WB2013PTC197520	डबल्यूडबल्यूएस सवालका सेफ्टीप्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3	U74900WB2010PTC150919	मेटाकेर्ण फेरॉल्लोयस प्राइवेट लिमिटेड
4	U70109WB2012PTC184022	एमआर 3 स्टार-हाईटेक रियल इस्टेट एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
5	U45400WB2007PTC114699	हैप्पी विला प्राइवेट लिमिटेड
6	U45400WB2008PTC129982	हैप्पी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
7	U63090WB2013PLC193334	जोव हॉलिडे (इंडिया) लिमिटेड
8	U17291WB2013PTC193205	जोवस्टार गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
9	U51228WB2003PTC097261	रोज़ारिओ बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
10	U18109WB2007PTC115356	रिकर्डो फेरदुक्की फैशनस प्राइवेट लिमिटेड
11	U52190WB2011PTC161912	ब्रॉडवे विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड
12	U45203WB2004PTC098510	साउथ कोलकाता टावर्स प्राइवेट लिमिटेड
13	U45400WB2007PTC116353	यूएसवी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
14	U51909WB2012PTC185445	मृन्मयी कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
15	U52190WB2011PTC161913	पैशन डीलट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
16	U51909WB1997PTC083253	स्ट्रैंज कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
17	U24231WB1997PTC082603	हिमाद्रि इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड

सौरभ गौतम
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में
पुडुच्चेरी-605011, दिनांक 24 फरवरी 2015

सं. 3(161)/560(5)/2015—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कंपनियां विघटित हो गई हैं :—

क्र.सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2533	आ म सिविल इंजिनियरिंग कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
2	2124	शिवा शक्ति ही-टेक पैकएजिंग प्राइवेट लिमिटेड

सी.म. कार्ल मार्क्स
कम्पनी रजिस्ट्रार
पुडुच्चेरी

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 24th March 2015

No. 2/9/14-Admn-279665—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Anand Kumar Singh, ITS (1994) as Director in the Commission on Central Deputation basis in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the forenoon of 19th March, 2015 on shift basis for a period upto 18th July, 2017 or till further order, whichever is earlier.

P. K. MOHANTY
Under Secy. (Admn.)
for Central Vigilance Commissioner

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi-110124, the 12th March 2015

No. 973-GE-I/13-2006—The following IA&AS officers have retired on superannuation/Compulsory retired from Government Service from the date shown against their names :—

Sl. No.	Name of the officer and Designation S/Shri/Ms.	Date of Retirement/Compulsory retired
1.	Shantanu Basu, Principal Accountant General (A&E), Assam, Guwahti	Compulsory retired wef 24.02.2015 (AN)
2.	B. S. Meena, Sr. Deputy Accountant General (SS-II), O/o PAG (G&SSA), Rajasthan, Jaipur	28.02.2015 (AN)

SUDHA RAJAN
Asstt. Comptr. & Auditor General (P)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
(LABOUR BUREAU)

Shimla-171004, the 31st March 2015

No. 5/1/2015-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base:2001=100 decreased by 1 point and stood at 253 (two hundred fifty three) for the month of February, 2015.

S. S. NEGI
Director

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 22nd January 2015

No.6(2680)14-Admn/907— The President is pleased to appoint Shri Pranay Kumar Verma, IFS (1994) as Officer on Special Duty from 13.10.2014 to 31.12.2014 and as Joint Secretary w.e.f. 01.01.2015 in the Department of Atomic Energy, Mumbai in the Pay Band (PB-4 : Rs. 37400—67000 + Grade Pay Rs. 10000/-) for the period upto 12.10.2017 or until further orders, whichever event takes place earlier.

K.P.S. PILLAI
Under Secy. (Admn.)

RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore, the 6th April 2015

No. RRCAT/Admin/2014/R-805/308—The President of India is pleased to appoint the following Technical Officer/B (PB:2, Rs. 9300—34800/- + Grade Pay Rs. 4800/-) as Technical Officer/C (PB:3, Rs. 15600—39100/- + Grade

Pay Rs. 5400/-) on promotion with effect from 01-07-2014 (Forenoon) in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders:—

Sr.No.	C.C. No.	Name	Division
1	1487	Shri Hemkant Sharma	UHVTS
2	1588	Shri Sanjay Kumar Mishra	LMPD

B.K. JENA
Chief Administrative Officer

GENERAL SERVICES ORGANISATION

Kalpakkam 603 102, the 2nd March 2015

Ref: GSO/28(91)/2015-R/ 933—The President is pleased to appoint Shri N. Sivakumar, IC.No:50977, SO/SB of GSO, Kalpakkam in the Pay Band of Rs.9300-34800 + Grade pay Rs.4800/- as Scientific Officer/C in the Pay Band of Rs.15600-39100 + Grade pay Rs.5400/- in the same Organisation with effect from 01.07.2013 in an officiating capacity, until further orders.

P.T. MOHAN
Administrative Officer – III

Ref: GSO/28(91)/2015-R/ 933—The President is pleased to appoint Shri S. Thirupathi Raj, IC.No:51080, Scientific Assistant/D of GSO, Kalpakkam in the Pay Band of Rs.9300-34800 + Grade pay Rs.4800/- as Technical Officer/C in the Pay Band of Rs.15600-39100 + Grade pay Rs.5400/- in the same Organisation with effect from 01.07.2013 in an officiating capacity, until further orders.

P.T. MOHAN
Administrative Officer – III

Ref: GSO/28(91)/2015-R/933—The President is pleased to appoint Shri K.S. Ganesh Rajan, IC.No:51107, Technical Officer/B of GSO, Kalpakkam in the Pay Band of Rs.9300-34800 + Grade pay Rs.4800/- as Technical Officer/C in the Pay Band of Rs.15600-39100 + Grade pay Rs.5400/- in the same Organisation with effect from 01.07.2013 in an officiating capacity, until further orders.

P.T. MOHAN
Administrative Officer – III

Ref: GSO/28(91)/2015-R/933—The President is pleased to appoint Shri K.S. Elango, IC.No:51128, SO/SB of GSO, Kalpakkam in the Pay Band of Rs.9300-34800 + Grade pay Rs.4800/- as Scientific Officer/C in the Pay Band of Rs.15600-39100 + Grade pay Rs.5400/- in the same Organisation with effect from 01.07.2013 in an officiating capacity, until further orders.

P.T. MOHAN
Administrative Officer – III

Ref: GSO/28(91)/2015-R/933—The President is pleased to appoint the under mentioned Scientific Officers/C of GSO, Kalpakkam in the Pay Band of Rs.15600-39100 + Grade pay Rs.5400/- as Scientific Officer/D in the Pay Band of Rs.15600-39100 + Grade pay Rs.6600/- in the same Organisation with effect from the date indicated against each in an officiating capacity, until further orders:-

Sl. No	Name	ICNO	Present Grade	Grade on Promotion	With effect from
1.	Shri S. Sathasivan	50860	SO/C	SO/D	01.07.2013
2.	Shri Bikash Kumar	52112	SO/C	SO/D	01.07.2013

P.T. MOHAN
Administrative Officer – III

Ref: GSO/28(91)/2015-R/933—The President is pleased to appoint the under mentioned Scientific Officers/D of GSO, Kalpakkam in the Pay Band of Rs.15600-39100 + Grade pay Rs.6600/- as Scientific Officer/E in the Pay Band of Rs.15600-39100 + Grade pay Rs.7600/- in the same Organisation with effect from the date indicated against each in an officiating capacity, until further orders:-

Sl. No	Name	ICNO	Present Grade	Grade on Promotion	With effect from
01.	Shri S.G. Janakar	50593	SO/D	SO/E	01.07.2013
02.	Shri P. Rajasekaran	50749	SO/D	SO/E	01.07.2013
03.	Shri V. Sathya Kali Prasad	51072	SO/D	SO/E	01.07.2013
04.	Shri S. Elumalai	51117	SO/D	SO/E	01.07.2013
05.	Dr. G. Devanand Kumar	52023	SO/D(M)	SO/E(M)	01.07.2013
06.	Dr. Biplab Chatterjee	52036	SO/D(M)	SO/E(M)	01.07.2013

P.T. MOHAN
Administrative Officer – III

Ref: GSO/28(91)/2015-R/933—The President is pleased to appoint the under mentioned Scientific Officers/E (M) of GSO, Kalpakkam in the Pay Band of Rs.15600-39100 + Grade pay Rs.7600/- as Scientific Officer/F (M) in the Pay Band of Rs.37400-67000 + Grade pay Rs.8700/- in the same Organisation with effect from the date indicated against each in an officiating capacity, until further orders:-

Sl. No	Name	ICNO	Present Grade	Grade on Promotion	With effect from
1.	Dr.(Smt.) Shoba Ranganathan	50829	SO/E(M)	SO/F[M]	01.07.2014
2.	Dr. Mathew P. Alex	51057	SO/E(M)	SO/F[M]	01.07.2014

P.T. MOHAN
Administrative Officer – III

Ref: GSO/28(91)/2015-R/933—The President is pleased to appoint the under mentioned Scientific Officers/F of GSO, Kalpakkam in the Pay Band of Rs.37400-67000 + Grade pay Rs.8700/- as Scientific Officer/G in the Pay Band of Rs.37400-67000 + Grade pay Rs.8900/- in the same Organisation with effect from the date indicated against each in an officiating capacity, until further orders:-

Sl. No	Name	ICNO	Present Grade	Grade on Promotion	With effect from
1.	Dr.(Smt.) V. Saroja Devi	50775	SO/F(M)	SO/G[M]	01.07.2014
2.	Shri M. Venkatesulu	51115	SO/F	SO/G	01.07.2014

P.T. MOHAN
Administrative Officer – III

Ref: GSO/28(91)/2015-R/933—Director, GSO is pleased to appoint Shri. K. Subramanian, Senior Clerk, IGCAR, Kalpakkam as Assistant Accounts Officer in the General Services Organisation, Kalpakkam in the Pay Band of Rs. 9300—34800/- + Grade Pay of Rs. 4800/- w.e.f. 19.01.2012 in an officiating capacity, until further orders.

P.T. MOHAN
Administrative Officer – III

Ref: GSO/28(91)/2015-R/933—Director, GSO is pleased to appoint Kum. V. Chirta, Assistant Accounts Officer, BARC, Mumbai as Accounts Officer in the General Services Organisation, Kalpakkam in the Pay Band of Rs.9300-34800 + Grade Pay of Rs. 5400/- w.e.f. 26.08.2013 in an officiating capacity, until further orders.

P.T. MOHAN
Administrative Officer – III

Ref: GSO/28(91)/2015-R/933—Director, GSO is pleased to appoint Shri. H.L. Jadhav, Assistant, BARC, Mumbai as Assistant Personnel Officer in the General Services Organisation, Kalpakkam in the Pay Band of Rs.9300-34800 + Grade Pay of Rs. 4800/- w.e.f. 05.09.2012 in an officiating capacity, until further orders.

P.T. MOHAN
Administrative Officer – III

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

O/o. REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kanpur-208001, the 18th March 2015

No.LC/560(3)/8074—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved :—

Sl No.	Company Name	CIN no.	SRN no.
1	K.C.N AGROOILS PRIVATE LIMITED	U74120UP2010PTC042493	C38484796
2	SAPHIREGREEN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058571	C38780227
3	DIAMONDBLUE BUILDTECH PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058313	C39262092
4	RHITI STUDIOS PRIVATE LIMITED	U92199UP2006PTC031756	C39753108
5	PERFECT CAREER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U80211UP2002PTC026483	C39909916
6	SM PROMOTION PRIVATE LIMITED	U93030UP2012PTC051156	C40165664
7	ANURAJ REFRACTORY PRIVATE LIMITED	U29300UP2005PTC029493	C40596165
8	GOLDEN SKILLS PRIVATE LIMITED	U80904UP2012PTC049979	C40782328
9	TRIVENI E-LEARNING PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC050578	C40792715
10	Dig and Drill Contracting and Supplies Private Limited	U45400UP2012PTC051277	C40884124
11	SHREE DADU JI COMMUNICATION PRIVATE LIMITED	U32300UP2007PTC033310	C41133588
12	RELIABLE SURAKSHA & SUPPORT SERVICES PRIVATE LIMITED	U93000UP2009PTC036967	C41399072
13	CARE ELECTRO SERVICES PRIVATE LIMITED	U31908UP2009PTC036643	C41450255
14	J.S TOWNSHIPS PRIVATE LIMITED	U45400UP2007PTC033818	C41459132
15	REINFORCE MARKETING PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC037427	C41542259
16	ENIGMA SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC046637	C41621954

Sl No.	Company Name	CIN no.	SRN no.
17	DN TRAVEL SOLUTION PRIVATE LIMITED	U63040UP2014PTC063438	C41629700
18	SWEETDREAMS AGROTECH AND LAND DEVELOPMENT INDIA LIMITED	U93000UP2010PLC040441	C41697202
19	BRIGHTMOON SALES COMPANY PRIVATE LIMITED	U67190UP2010PTC040425	C41723230
20	LUBRIZOOM PETROLEUM INDIA PRIVATE LIMITED	U23203UP2013PTC056614	C41719048
21	VINLOGIC I.T. SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U93000UP2009PTC036967	C41782558
22	NUTS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U31908UP2009PTC036643	C41850421
23	VENUS MINERAL WATER PRIVATE LIMITED	U45400UP2007PTC033818	C41916750
24	SHUBHANSHU PLASTICS PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC037427	C41973371
25	APICAL INFRACONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC046637	C42007625
26	VEDA BUSINESS ASSOCIATES PRIVATE LIMITED	U63040UP2014PTC063438	C42025718
27	STARLINE INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED	U93000UP2010PLC040441	C42060244
28	AB AGRORETAIL PRIVATE LIMITED	U67190UP2010PTC040425	C42081042
29	CAC ARCHITECTS PRIVATE LIMITED	U23203UP2013PTC056614	C42114934
30	BSK INFRATECH PRIVATE LIMITED	U93000UP2009PTC036967	C42116400
31	GLORIOUS EVENTS AND PRODUCTION PRIVATE LIMITED	U31908UP2009PTC036643	C42120386
32	KISA ESTATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U45400UP2007PTC033818	C42149849
33	Alchemia Technologies Private Limited	U74900UP2009PTC037427	C42146902
34	SAPHIREGREEN BUILDCON PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC046637	C42178970
35	DIAMONDBLUE MEGABUILDERS PRIVATE LIMITED	U63040UP2014PTC063438	C42194407
36	NAGESHWAR INFRAZONE PRIVATE LIMITED	U93000UP2010PLC040441	C42205047
37	UNICORN LIQUORS PRIVATE LIMITED	U67190UP2010PTC040425	C42226670
38	PanAsia Hospitality Private Limited	U23203UP2013PTC056614	C42304634
39	SHIRAZ-E-KHAAS HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	U93000UP2009PTC036967	C42375147
40	JNK AROMATICS PRIVATE LIMITED	U31908UP2009PTC036643	C42477984
41	ALPINE LABORATORIES PRIVATE LIMITED	U45400UP2007PTC033818	C42498113

Sl No.	Company Name	CIN no.	SRN no.
42	PSM STEELS PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC037427	C42498287
43	BEE POSITIVE RETAIL PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC046637	C42536060
44	REAL BHUMI INDIA LIMITED	U63040UP2014PTC063438	C42596098
45	ARAMBH HOUSING INFRASTATE PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC053719	C42661215
46	IDEAL MEDICARE AND DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED	U85191UP2013PTC055548	C42665125
47	SHREEVASTAVA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC055045	C42674432
48	INTHA INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED	U45400UP2010PTC040361	C42828095
49	WELLNESS POWER YOGA PRIVATE LIMITED	U74900UP2011PTC044005	C42892299
50	GOLDLINE I.C. TEXTILE & FASHION COMPANY PRIVATE LIMITED	U18204UP2010PTC042097	C42949800
51	SURYASWASTIK HOUSING (INDIA) PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC054268	C42954495
52	BIZZ DUNIYA INFOMEDIA PRIVATE LIMITED	U93030UP2011PTC044654	C43017185
53	Vidya Home Developers Private Limited	U70102UP2011PTC047595	C43152875
54	FIVE MIND'S TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U80211UP2014PTC062697	C43182740
55	WHITE FEATHER FASHION PRIVATE LIMITED	U17121UP2006PTC032670	C43187368
56	KALKA WINES PRIVATE LIMITED	U52100UP2012PTC053727	C43229996
57	HEERA PANNA TRADIMPEX PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC050043	C43245208
58	INSTOCURE PHARMA PRIVATE LIMITED	U24100UP2014PTC062355	C43248111
59	SCIENTIFIC MEMORY (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC036576	C43547751
60	SCIENTIFIC MEMORY DEVELOPMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72900UP2007PTC033959	C43548593
61	YUVIK OVERSEAS PRIVATE LIMITED	U74900UP2013PTC060581	C43657162
62	HR INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC055792	C43684026
63	xBirds Systems Private Limited	U72300UP2011PTC046256	C43763457
64	M. L. AUTO AND DIESEL SPARES PRIVATE LIMITED	U36999UP1995PTC017526	C43831072

S.P. KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies:-

Chandigarh, the 31st March 2015

No. ROC/560(5) FTE/2013—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following Companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved:—

S. No.	Company No.	Name of the Company
1.	33591	Pave Stone India Private Limited
2.	30236	NYX Auto Plastics Private Limited
3.	33790	Emerging India Healthcare Private Limited
4.	35918	ZcomInfomatique Private Limited
5.	18372	Whitefield Engineering & Fastners Private Limited
6.	13891	Indo Italian Agro Feeds Private Limited
7.	09670	Fortune Agencies Private Limited
8.	34599	Paul Life Sciences Private Limited
9.	36646	R P Properties Private Limited
10.	29250	Solitaire Financial Consultants Private Limited
11.	08580	Nachiketa Strips & Tubes Private Limited
12.	32562	A M Music Creators Private Limited
13.	35127	Zanders Skills Private Limited
14.	26130	Sibros Engineering Private Limited
15.	03013	Rainbow Knitters Private Limited
16.	30699	Core Structures Private Limited
17.	33313	Taurus Immigration & Visa Consultants Private Limited
18.	20914	Mahajan Agro Mills Private Limited
19.	26055	Impressions Poly Sacks Private Limited
20.	31366	Midway Enterprises Private Limited
21.	25671	Fin Technologies Private Limited
22.	19788	New Era Perpetual Innovations Private Limited
23.	37289	DRP Forgings Private Limited
24.	34531	Milshan Hospitals Private Limited
25.	33688	Red Craft Acadmy Private Limited
26.	34521	Rescent & Reck Lab Private Limited
27.	33874	Indo Power Construction Equipment Limited
28.	15296	Mankoo Machine Tools Private Limited
29.	38744	DurendImpex Private Limited
30.	05119	Sansarimal Kartar Chand Private Limited
31.	15254	Goyal Clinic Private Limited
32.	33308	Genpak Trading Private Limited
33.	34566	Aditya Processing Private Limited
34.	34700	Landcon Infra Private Limited
35.	38510	Innovative Global Diabetic Cure Limited

S. No.	Company No.	Name of the Company
36.	32506	Colortech Inks And Coatings Private Limited
37.	35734	Zeus Infra Developers Limited
38.	36537	Cosset Capital Private Limited
39.	33989	Kriman India Limited
40.	21350	Haaryz Products Private Limited
41.	32095	Core Software Solutions Private Limited

VILAS GAJANANNIPANE
Asstt. Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Mumbai-400002, the 27th March 2015

No. ROC/PT/FTE/560(5)/1115—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of the following Companies have this day been struck off the Register and the said companies are dissolved.

SR. NO	COMPANY NAME	CIN NO.
1	JEPSUN SECURITIES BROKING PRIVATE LIMITED	U67120MH2005PTC153174
2	ALHUZAIF EXIM PRIVATE LIMITED	U51900MH1992PTC066574
3	VYANKATESH GREEN PROJECTS PRIVATE LIMITED	U01403MH2011PTC216032
4	VYANKATESH WEALTH MULTIPLIER PRIVATE LIMITED	U70102MH2011PTC222259
5	PRINCE DEVELOPERS AND DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U45203MH2004PTC147642
6	SANNJ PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45400MH2007PTC169885
7	THAKKAR PEN MART PRIVATE LIMITED	U36991MH1994PTC078905
8	MR. COOK INDIA PRIVATE LIMITED	U74990MH2012PTC226858
9	TWENTY FOUR SEVEN DISTRIBUTION PRIVATE LIMITED	U74999MH2008PTC184225
10	GOOSEBERRY FOODS PRIVATE LIMITED	U15132MH2009PTC195836
11	J M JEWELS PRIVATE LIMITED	U28133MH2011PTC215571
12	LANTERN GAMING & ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U72300MH2011PTC216779
13	GLEAMER PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U74999MH2007PTC168221
14	VILPA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45200MH1998PTC116773
15	SHREYAS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U63010MH2008PTC184268
16	MAGNON SHIPPING AGENCY PRIVATE LIMITED	U63090MH1995PTC095667
17	TRANSLINE SHIPPING (MUMBAI) PRIVATE LIMITED	U63032MH2008PTC189204
18	PRIME CONSTRUCTIONS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1994PTC083520

SR. NO	COMPANY NAME	CIN NO.
19	SILVERSHINE AGRICULTURE PRIVATE LIMITED	U01403MH2010PTC208050
20	BHAULAXMI CHEMICALS PVT LTD	U24299MH1985PTC038158
21	AAA MULTI-TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U74999MH2010PTC204286
22	SARKAR CERAMICS PRIVATE LIMITED	U52342MH2010PTC199850
23	PARIMAL AROMATIC PVT LTD	U24100MH1992PTC066572
24	EMOSAMBIZ FOOD TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U15122MH2011PTC215825
25	HIRAMAN EK GRIHA NIRMAN PRIVATE LIMITED	U45200MH1998PTC116011
26	WINJIRA FOODS PRIVATE LIMITED	U15400MH2011PTC211755
27	LE MODE FASHIONS PRIVATE LIMITED	U18204MH2010PTC204673
28	GURUDEVA PRODUCTIONS PVT.LTD.	U92120MH2006PTC165129
29	OSIYAN MOBILE PRIVATE LIMITED	U74900MH2008PTC181972
30	R.R. INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	U99999MH1981PTC025643
31	QUICK CUTS PRIVATE LIMITED	U74990MH2010PTC205988
32	. ABS AVIATION AND LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U35303MH2007PTC175024
33	J AND M LEISURE CLUB PRIVATE LIMITED	U92190MH2003PTC139460
34	S. I. CINEMAWALLA PRIVATE LIMITED	U92100MH2008PTC188718
35	STREAMLINE PROFESSIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2008PTC179543
36	RUSABH VEGETABLE OIL PRIVATE LIMITED	U72300MH1998PTC117144
37	DOSHI POLYPACK PRIVATE LIMITED	U28129MH1986PTC038848
38	TETRIX ENTERTAINMENT INDIA PRIVATE LIMITED	U92130MH2002PTC136983
39	KINESIS ENTERTAINMENT INDIA PRIVATE LIMITED	U92110MH2004PTC144188
40	WGI (INDIA) CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	U93090MH2008PTC181151
41	IXAAR-VJ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U85195MH2008PTC184051
42	NAVARIM MARKETING PVT LTD	U51900MH1992PTC069640
43	HOULIHAN LOKEY (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74120MH2011FTC222612
44	WESTERN FURNITURE INDIA PRIVATE LIMITED	U36103MH2011PTC215467
45	PHOENIX INFINITY INDIA PRIVATE LIMITED	U52100MH2012PTC236528
46	IMBUE TRADING PRIVATE LIMITED	U92110MH2003PTC140444
47	IMPACT BEDDING & UPHOLSTERY PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U18100MH2010PTC200963

SR. NO	COMPANY NAME	CIN NO.
48	FLOPTURNRIVER GAMES INDIA PRIVATE LIMITED	U92412MH2009PTC198109
49	AMPHIBIAN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200MH2008PTC184578
50	SUNDER BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70100MH1995PTC086049
51	PROTECT PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70109MH2007PTC168607
52	AMRIT INDUSTRIAL AND CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	U28900MH1997PTC111484
53	E&T KNOWLEDGE TOOLS AND PROCESS DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC230004
54	BITTERSWEET TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U72900MH2009PTC190117
55	ALISSA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U74900MH2008PTC180844
56	SAPNA CONTRACTORS AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U45102MH2006PTC158722
57	DAISIES ESTATES PRIVATE LIMITED	U70100MH2005PTC158395
58	VIBA FIBRE PRIVATE LIMITED	U29269MH1996PTC104224
59	EUROSOFT IMPEX PRIVATE LIMITED	U51900MH2000PTC126966
60	ELEGANT BEAUTY PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U24246MH1985PTC036693
61	CONTEMPORARY GOURMET OUTLET PRIVATE LIMITED	U51109MH2008PTC185982
62	TALENT CONFLUX CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC202296
63	MAHESHWARI BUILDCON PRIVATE LIMITED	U45202MH2009PTC198180
64	K.S.CHEMPHARMA PRIVATE LIMITED	U24239MH2007PTC166632
65	PREEYA INFRASTRUCTURE AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC166634
66	VIRAG TEXPORT PRIVATE LIMITED	U51909MH2011PTC216606
67	SAI BIZ INFO SYSTEM PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC205262
68	JIVNANI CLOTH STORES PRIVATE LIMITED	U51109MH1990PTC057539
69	DRAGAGES ENGINEERING AND CONSTRUCTION (INDIA) PRIVATE LIMITED	U45201MH2007PTC169616
70	ADVAIT CITY MOVERS PRIVATE LIMITED	U93000MH2010PTC208933
71	POSITIVE DELTA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U64201MH2005PTC157929
72	DVAARIKA DEVELOPMENT AND LEASING PRIVATE LIMITED	U70200MH1997PTC112548
73	LPC HEALTH CARE PRIVATE LIMITED	U36101MH2010PTC209865
74	NISHCHAYE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	U55101MH2003PTC141273
75	ABSOLUT TELEVISION AND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92130MH1997PTC112005

SR. NO	COMPANY NAME	CIN NO.
76	GOKUL SAREES PRIVATE LIMITED	U17110MH1997PTC106810
77	B Y BUILDERS PVT LTD	U70102MH1982PTC027804
78	SANGINI AIRLINES PRIVATE LIMITED	U62200MH2008PTC180808
79	JASODHARA TRADING PRIVATE LIMITED	U51101MH2010PTC208977
80	CHARMS PROPERTIES P. LTD.	U45200MH1994PTC077817
81	S V S AGRO FARM PRIVATE LIMITED	U65920MH1998PTC117665
82	JASPER AGROTECH PRIVATE LIMITED	U01400MH2010PTC202547
83	OJAS MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U14100MH2007PTC173412
84	SHIVAM MEDICARE PRIVATE LIMITED	U85110MH2005PTC150629
85	KHAWAISH MOVIES PRIVATE LIMITED	U92100MH2004PTC147131
86	APOLLO SHIPPING PRIVATE LIMITED	U61200MH2009PTC194954
87	NEW HORIZON CRUISES PRIVATE LIMITED	U01405MH1986PTC041646
88	SWASTIKA ARTIST PROMOTION PRIVATE LIMITED	U22190MH2009PTC189866
89	SEAGULL SOLUTIONS LIMITED	U72900MH2000PLC123932
90	TANI EAZYFUDZ PRIVATE LIMITED	U70102MH2012PTC234669
91	COSMIC GATE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U72900MH2009PTC192364
92	ENERCON FAVRETTO PAPERS PRIVATE LIMITED	U21090MH2010PTC199994
93	BRAHANS ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED	U74210MH1983PTC029659
94	VIJETA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH1991PTC063509
95	ANSU MARKETING PRIVATE LIMITED	U51101MH2013PTC243713
96	SHREE DEVANAND BHAU ROCHKARI SUGAR MILLS PRIVATE LIMITED	U15490MH2011PTC218606
97	SHOGUN NETWORK LIMITED	U51909MH1995PLC088665
98	MICROCOMP ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	U29220MH1991PTC060066
99	KAMESHWAR WAREHOUSING PVT LTD	U63020MH1993PTC072644
100	BHRAHMAS CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH2008PTC189170
101	DRYDOCKS WORLD-ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U74990MH2009PTC191067
102	SAMYAK CHEMICALS & PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U74900MH2012PTC231914
103	TANMAY TRANSPORT PRIVATE LIMITED	U62200MH2011PTC214063
104	NILKAR TRADING CO. PRIVATE LIMITED	U15490MH2010PTC204297
105	ECOMOVE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200MH2008PTC187718

SR. NO	COMPANY NAME	CIN NO.
106	RCF - HM CONSTRUCTIONS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U45202MH2009PTC193070
107	VAIBHAV LAXMI COMMERCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999MH2004PTC149542
108	HYGIENIC FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U15130MH1984PTC034134
109	EZEE ONLINE MARKETING PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC209433
110	NIJI TEXTILES PRIVATE LIMITED	U17120MH1990PTC056731
111	VISHAL ELECTRO SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U31300MH1997PTC112653
112	PAN SUPPLY CHAIN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U63000MH2009PTC193921
113	SHICKSHACK ONLINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900MH2007PTC173662
114	SKIL HIMACHAL HILLS RESORTS PRIVATE LIMITED	U55101MH2007PTC170446
115	CEAT FINANCE AND INVESTMENT LIMITED	U65923MH2008PLC182334
116	ROYAL SECURE LIFE PRIVATE LIMITED	U66000MH2009PTC194062
117	GLORANT CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH2010PTC209482
118	G K BULK LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63030MH2005PTC151664
119	EAGLE PLASTOCHEM DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U24117MH2005PTC157821
120	HELIUS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900MH1999PTC117774
121	OKA WATER SOLUTION SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U33111MH2011PTC224868
122	CAPRI SHIPPING PRIVATE LIMITED	U35100MH1987PTC045510
123	HANKER FINANCE AND MARKETING PRIVATE LIMITED	U65944MH1993PTC070305
124	VASHI CHEMI-EQUIP P. LTD.	U99999MH1994PTC076585
125	DWARKA GREEN HILL HOTELS PRIVATE LIMITED	U55100MH2004PTC149985
126	GO EVENTS PRIVATE LIMITED	U92190MH2007PTC177146
127	VIGHNESHWAR SECURITIES PRIVATE LIMITED	U75300MH2008PTC182257
128	JNISS NETWORKING INDIA PRIVATE LIMITED	U72900MH2008PTC181551
129	MADHANI STOCK BROKERS PRIVATE LIMITED	U65999MH2008PTC189041
130	RISOTTO FOODS PRIVATE LIMITED	U15400MH2008PTC187168
131	IBS PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70102MH2012PTC232677
132	CAPRICORN GLOBAL SERVICE PRIVATE LIMITED	U67190MH2006PTC159902
133	ESHNA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U74300MH1996PTC098259
134	GUJARAT ENGINEERING WORKS PVT LTD	U74210MH1986PTC040882
135	SURAKSHA HOLDINGS P LTD	U67120MH1994PTC078237

SR. NO	COMPANY NAME	CIN NO.
136	DEEAAR ENERGY VENTURES PRIVATE LIMITED	U31300MH2005PTC157214
137	RAVYOG IMPEX PRIVATE LIMITED	U51310MH2000PTC126840
138	CASTWEL FOUNDIRES PRIVATE LIMITED	U27200MH1971PTC015143
139	LUXURY BRANDS RETIL PRIVATE LIMITED	U52190MH2005PTC157856
140	VIKI BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45400MH2009PTC192684
141	EXCEL-IN-SEA SHIPPING AGENCIES PRIVATE LIMITED	U63090MH2005PTC150528
142	SPTV INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45200MH2008PTC178236
143	SURENDRA QUALITY FORGE PRIVATE LIMITED	U27320MH2003PTC138505
144	BRAIN & IRIS MEDICAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900MH2008PTC179885
145	FOOTPRINTS MOTION PICTURES PRIVATE LIMITED	U92412MH2011PTC212439
146	VENKATESH PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U51900MH1991PTC062956
147	S.R.T. CREATIONS PRIVATE LIMITED	U80904MH2009PTC194772
148	BHAKTI CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED	U67190MH2008PTC183627
149	AMAZON OFFSHORE PRIVATE LIMITED	U63012MH2006PTC166157
150	SVED MACHINES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74201MH1994PTC078065
151	SHRI GURUNANAK HOSPITALS AND RESEARCH CENTER LIMITED	U85110MH2004PLC144186
152	RICH FAB SILK MILLS PRIVATE LIMITED	U51494MH1989PTC054292
153	STRATA BPO PRIVATE LIMITED	U74900MH2007PTC174637
154	HARSHNIL SOLVEX PRIVATE LIMITED	U74900MH2008PTC177795
155	ATIKSH INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U70102MH2011PTC220400
156	PRECISE BUSINESS INCUBATION INDIA PRIVATE LIMITED	U74990MH2010PTC200043
157	SPAKSH REALTY PRIVATE LIMITED	U70102MH2010PTC208916
158	RU CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	U72200MH2005PTC153489
159	NOEL'S FOODS AND HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	U55101MH2010PTC204008
160	MARS COPPER PRIVATE LIMITED	U27201MH2009PTC197168
161	BLUE OPEL DEVELOPERS AND CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED	U72200MH2011PTC223060
162	CHAKRAVARTI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U67120MH1998PTC114094
163	SMIT TRAVEL SERVICES PRIVATE LIMITED	U63040MH2008PTC186262
164	KAP INTERIORS PRIVATE LIMITED	U45400MH2008PTC186754
165	BALAJI NONI PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC237356

SR. NO	COMPANY NAME	CIN NO.
166	SUPROHA PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70102MH2011PTC223266
167	EQUIFAX TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED	U74900MH2011FTC211803
168	INTER-DIGITAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U31401MH1992PTC069346
169	FIRST FUTURE PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45200MH2008PTC186956
170	NEXT PRACTICE RETAIL PRIVATE LIMITED	U93000MH2007PTC173520
171	NEW KHIM HOLDINGS PRIVATE LIMITED	U67120MH1979PTC021783
172	SHOPPERS FORTUNE MARKETING PRIVATE LIMITED	U51909MH2008PTC183112
173	HATHWAY MCN JALNA - HINGOLI CABLE NETWORK PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC231784
174	TEJDEEP FACILITIES MANAGEMENT AND ELECTRICALS PRIVATE LIMITED	U31200MH2005PTC156074
175	GLAMOUR ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92100MH2004PTC146436
176	ELITE DENTAL COMPANY PRIVATE LIMITED	U85120MH1995PTC086778
177	JAYKETAN MACHINERY AND CLOTHING PRIVATE LIMITED	U99999MH1983PTC030070
178	BEAUTIFUL PATH REALTORS PRIVATE LIMITED	U70102MH2011PTC215308
179	AESTHETIC REALTORS PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC168315
180	KHIM FILTRATION INDIA PRIVATE LIMITED	U74999MH1985PTC035221
181	KHIMJI ENGINEERS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U28920MH1975PTC018528
182	CHANDRAM ART PRIVATE LIMITED	U51900MH2008PTC183751
183	BSMARTONLINE (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72200MH2007PTC172587
184	HANS LASER TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	U31900MH2007FTC169655
185	TIRUPATI NONI PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC237340
186	REFLECT FARMLAND PRIVATE LIMITED	U74996MH2012PTC237052
187	TIRUPATI NONI CULTIVATION PRIVATE LIMITED	U74996MH2012PTC237074
188	HUMAN FACTOR PROGRESSION PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC239464
189	SANGAT BANI PROGRESSION PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC239533
190	VASPAR PACKAGING PRIVATE LIMITED	U25202MH1997PTC105706
191	NETMAGIC STOCK HOLDING PRIVATE LIMITED	U65993MH2001PTC132784
192	VIVID REALTORS PRIVATE LIMITED	U72100MH1993PTC072226
193	LEO GOLD MINING PVT.LTD	U51398MH2010FTC206542
194	SPRING GAMES PRIVATE LIMITED	U72900MH2012PTC236523

SR. NO	COMPANY NAME	CIN NO.
195	SKM EXIM TRADING PRIVATE LIMITED	U51909MH2007PTC170749
196	IMMORTAL SYSTEM PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC227586
197	OMNICON FREIGHT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U63030MH2007PTC170642
198	HOOVER & STRONG CREATIONS INDIA PRIVATE LIMITED	U36900MH2011PTC218175
199	ANAGA MARKETING AND MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U24119MH1995PTC094702
200	CASA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED	U67190MH2011PTC212351
201	ANJANEY NATURAL RESOURCES PRIVATE LIMITED	U13204MH2008PTC188320
202	LAJAWAB HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	U55101MH2008PTC184678
203	INTERNATIONAL FLIGHT TRAINING INSTITUTE OF INDIA PRIVATE LIMITED	U80301MH2010PTC211672
204	HBOT SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED	U55209MH2007PTC168906
205	ITALIAN LIGHTING PRIVATE LIMITED	U36998MH2007PTC176261
206	ARETIC INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED	U67200MH2004PTC145896
207	KS ZANEUT HEALTH CARE PRIVATE LIMITED	U24230MH2002PTC135709
208	MAGNUM DEVELOPERS PVT LTD	U99999MH1987PTC043349
209	MOTHER'S NEST PRIVATE LIMITED	U55101MH2009PTC196866
210	INTECH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900MH2000PTC126557
211	LEO-CANCIAN ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC233142
212	DOMINO SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	U72900MH2009PTC195409
213	MAZSON IT PARK PRIVATE LIMITED	U45209MH2007PTC170042
214	NYSA SECURITIES AND MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U80301MH2010PTC206085
215	NETPOINT SURYA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74140MH2004PTC148755
216	KIVI POLYMER PRIVATE LIMITED	U24110MH1995PTC089170
217	SUNGOLD CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45200MH1990PTC057971
218	VERMA PLASTICS TRADERS PRIVATE LIMITED	U25209MH1992PTC066508
219	KUNDAN FASTNERS PRIVATE LIMITED	U99999MH1994PTC081931
220	APG CONSTRUCTIONS AND INFRA PRIVATE LIMITED	U45400MH2010PTC208124
221	ICEBERG KNITTING PRIVATE LIMITED	U17120MH1997PTC111792
222	FMCGME IMPORTERS AND DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U51909MH2005PTC155318
223	TAPLAST DISPENSING SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U74990MH2011PTC212265
224	SANSULA - BRECO FOODS AND BEVERAGES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U15510MH1998PTC115207
225	KALPESH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200MH2006PTC163073

SR. NO	COMPANY NAME	CIN NO.
226	INOLGS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72400MH2011PTC225421
227	PARAS MERCHANDISE PRIVATE LIMITED	U51909MH2005PTC151281
228	MERRILL LABORATORIES PRIVATE LIMTIED	U24232MH2007PTC176548
229	STEP UP MULTIHANDEL PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC204411
230	JAFFS PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70100MH2005PTC154748
231	IPCA TRADITIONAL REMEDIES PRIVATE LIMITED	U85100MH2007PTC170959
232	MAZSON AGROBIOTECH PRIVATE LIMITED	U01403MH2007PTC170043
233	JINI KNITS INDIA PRIVATE LIMITED	U51310MH2006PTC159565
234	BLUESUN MERCANTILE COMPANY PRIVATE LIMITED	U51909MH2004PTC144264
235	MARISE LABORATORIES PRIVATE LIMITED	U24100MH2007PTC175669

T. PANDIAN
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata, the 30th March 2015

No.ROC/WB/FTE/560/2015/5839—Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 17 Companies have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved.

SL No.	CIN	Name of the Company
1	U63040WB2006PTC111347	C.G. TOURS & TRAVELS PRIVATE LIMITED
2	U19115WB2013PTC197520	WWS SAWALKA SAFETY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
3	U74900WB2010PTC150919	METAKERN FERROALLOYS PRIVATE LIMITED
4	U70109WB2012PTC184022	MR 3 STAR-HITECH REAL ESTATE & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
5	U45400WB2007PTC114699	HAPPY VILLA PRIVATE LIMITED
6	U45400WB2008PTC129982	HAPPY INFRATECH PRIVATE LIMITED
7	U63090WB2013PLC193334	JOVE HOLIDAY (INDIA) LIMITED
8	U17291WB2013PTC193205	JOVESTAR GARMENTS PRIVATE LIMITED
9	U51228WB2003PTC097261	ROZARIO BEVERAGES PRIVATE LIMITED
10	U18109WB2007PTC115356	RICCARDO FERDUCCI FASHIONS PRIVATE LIMITED
11	U52190WB2011PTC161912	BROADWAY VINCOM PRIVATE LIMITED
12	U45203WB2004PTC098510	SOUTH KOLKATA TOWERS PRIVATE LIMITED
13	U45400WB2007PTC116353	USV BUILDERS PRIVATE LIMITED
14	U51909WB2012PTC185445	MRINMAYEE COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
15	U52190WB2011PTC161913	PASSION DEALTRADE PRIVATE LIMITED

SL No.	CIN	Name of the Company
16	U51909WB1997PTC083253	STRANGE COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
17	U24231WB1997PTC082603	HIMADRI IMPEX PRIVATE LIMITED

SAURABH GAUTAM
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Puducherry – 605 011, the 24th February 2015

No. 3(161) / 2015 – Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved:-

Sl. No.	CIN	Name of the Company
1.	U45200PY2010PTC002533	M/s. A M Civil Engineering Construction Private Limited
2.	U25202PY2008PTC002124	M/s. Shiva Shakthi Hi-Tech Packaging Private Limited

C.M. KARL MARX
Registrar of Companies
Puducherry

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in